



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 458] नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 20, 1976/आश्विन 28, 1898

No. 458] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 20, 1976/ASVINA 28, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके .

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE & BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October 1976

S.O. 684(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government being requested so to do by State Bank of India, establishes, with effect from the 20th October, 1976, a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, which shall operate within the local limits of the districts of Bilaspur and Raipur in the State of Madhya Pradesh.

[No. F.4-79/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर, 1976

क्र० प्र० 684 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार,

(1965)

भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध पर 20 अक्टूबर, 1976 से मध्य-प्रदेश राज्य में 'बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक मध्य-प्रदेश राज्य के बिलासपुर और रायपुर जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं. एफ० 4-79/76 ए० सी० (1)]

S.O. 685(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and State Bank of India, by which Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank has been sponsored, specifies Bilaspur as the place where Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F.4-79/76-AC(II)]

क्रा० प्रा० 685 (अ).—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रायोजक भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से बिलासपुर को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. एफ० 4-75/76 ए० सी० (2)]

S.O. 686(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F.4-79/76-AC(III)]

K. P. A. MENON, Addl. Secy.

क्रा० प्रा० 686 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उक्त उप-खण्ड के प्रयोजन के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एफ० 4-79/76 ए० सी० (3)]

के० पी० ए० मेनन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

NOTIFICATION

Bombay, the 20th October 1976

S.O. 687(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank, Bilaspur.

[DBOD. No. 134/INCL./C.102-76]

K. S. KRISHNASWAMY,
Deputy Governor.

भारतीय रिजर्व बैंक
बैंकिंग प्रिचालन तथा विकास विभाग
अधिसूचना

बम्बई, 20 अक्टूबर, 1976

का० प्रा० 687 (अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाए, अर्थात्:—

बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिलासपुर।

[डीबीओडी सं० 134 आई० एन० सी० एल०/सी० 102/76]

के० एस० कृष्णस्वामी, उप-गव र।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्राजालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

